

2. निवेश पोर्टफोलियो में विविधीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, और यह जोखिम प्रबंधन में कैसे मदद करता है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ बताइये कि विविधीकरण निवेश जोखिम को कम करने में कैसे मदद करता है।
(10)

या

कर नियोजन क्या है? आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को उपलब्ध विभिन्न कटौतियों और छूटों पर चर्चा कीजिए।
(10)

3. किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: (5×3=15)

(क) डिजिटल मुद्रा

(ख) एस्टेट प्लानिंग

(ग) धन का समय मूल्य

(घ) म्यूचुअल फंड योजनाएँ

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3852

J

Unique Paper Code : 2416000004

Name of the Paper : Personal Financial Planning

Name of the Course : Common Prog Group
(UGCF)

Semester : II/IV/VI

Duration : 1 Hours

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **all** questions.
3. **All** questions carry equal marks
4. Answers may be written either in **English or Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
 2. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
 3. सभी प्रश्न के अंक समान हैं।
 4. इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।
1. "A financial goal without a plan is just a wish, financial planning turns dreams into achievable milestones." Do you agree? Also, discuss the steps involved in financial planning. (10)

OR

Define the term reverse mortgage in the context of retirement planning. Explain its importance and how it benefits senior citizens. (10)

2. Why is diversification important in investment portfolios, and how does it help manage risk? Explain how diversification helps in reducing investment risk with suitable examples. (10)

OR

What is Tax Planning? Discuss various deductions and exemptions available to an individual as per Income Tax Act, 1961. (10)

3. Write a short note on (any two): (5x2=10)

(a) Digital Currency

(b) Estate Planning

(c) Time Value of Money

(d) Mutual Fund Schemes

1. “योजना के बिना वित्तीय लक्ष्य केवल एक इच्छा है, वित्तीय नियोजन सपनों को प्राप्त करने योग्य उपलब्धियों में बदल देता है।” क्या आप सहमत हैं? साथ ही, वित्तीय नियोजन में शामिल चरणों पर चर्चा कीजिए। (10)

या

सेवानिवृत्ति नियोजन के संदर्भ में रिवर्स मॉर्गेज शब्द को परिभाषित कीजिए। इसके महत्व को समझाएँ और यह वरिष्ठ नागरिकों को कैसे लाभ पहुँचाता है। (10)

P.T.O.